

सोने का सिक्का दिखाकर धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले अंतर्जनपदीय गैंग का किया खुलासा, पीली धातु के सिक्के, नगदी व मोटरसाकिल सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

विगत कई दिनों से श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर को धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले गैंग होने की सूचना मिल रही थी। पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा क्षेत्राधिकारी पुवायां के निर्देशन में पुवायां सर्किल के थानों की कई पुलिस टीमों गठित कर गैंग का खुलासा कर अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु गठित पुलिस टीमों को आवश्यक निर्देश दिये। साथ ही पुलिस टीमों की प्रत्येक दिवस की कार्यवाही की मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 16.01.2021 की शाम 06.00 बजे को थाना बण्डा की पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना पर **ग्राम ददिउरी जाने वाले रास्ते पर सिद्ध बाबा कुटिया के पास से** असली सोने का सिक्का दिखाकर धोखाधड़ी कर नकली सोने के सिक्के बेचकर भारी रकम लेकर जनता से ठगी करने वाले 03 अभियुक्तों 1. नसीम खाँ 2. शाहिद व 3. दिलशाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद कथित सोने के सिक्के व 40 अदद सिक्के पीली धातु, 2000/-रु0 सौदेबाजी का एडवॉन्स व प्रत्येक के कब्जे से एक-एक अदद तमंचा 315 बोर मय 04 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद मो0सा0 सुपर स्प्लेन्डर न0 UP 26 W 8997 बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

कार्यक्षेत्र व पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम भोले भाले लोगों को सोने का सिक्कों के को कम कीमत पर देने का लालच देते थे। जैसे ही व्यक्ति को हम पर विश्वास हो जाता था तो हम रुपये लेकर बदले में धोखाधड़ी कर नकली सोने के सिक्के (जिन पर सोने का पानी चढ़ा रहता है) दे देते थे। इस तरह की घटना हमारे द्वारा अन्य जनपद बरेली, पीलीभीत में भी कारित की गयी है। अभियुक्त से घटनाओं के बारे में भी जानकारी की जा रही है तथा पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- 1- नसीम खाँ पुत्र सलीम खाँ नि0 मौ0 ढका थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत,
- 2- शाहिद पुत्र मुन्शी नि0 ग्रा0 रजागंज थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत,
- 3- दिलशाद पुत्र ताहिर नि0 ग्रा0 मुझा थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत

पंजीकृत अभियोग:-

- 1- मु0अ0सं0 28/2021 धारा 420,406 भादवि थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 2- मु0अ0सं0 29/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम नसीम खाँ उपरोक्त,
- 3- मु0अ0सं0 30/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम शाहिद उपरोक्त,
- 4- मु0अ0सं0 31/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम दिलशाद उपरोक्त

बरामदगी का विवरण-

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1- 02 अदद कथित सोने के सिक्के, | 2- 40 अदद सिक्के पीली धातु, |
| 3- 2000/- रु0 ठगी के, | 4- 03 अदद तमंचा देशी 315 बोर |
| 5- 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, | 6- 01 अदद मो0सा0 सुपर स्प्लेन्डर न0 UP 26 W 8997 |

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 2- व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 3- उ0नि0 श्री रवेन्द्र सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 4- का0 2114 गौरव मलिक थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 5- का0 2126 जयपाल थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 6- का0 2262 अजयपाल थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 7- का0 2278 कुलदीप थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर